

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 453]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 सितम्बर 2014—आश्विन 3, शक 1936

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2014

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचना क्र. बी-11-3-2013-चौदह-2, दिनांक 28 जून 2014 द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत मौसम खरीफ 2014 हेतु पटवारी हल्का स्तर की अधिसूचना जारी की गई है. जारी अधिसूचना में दतिया, शाजापुर, होशंगाबाद, झाबुआ, सागर, सीधी, छिन्दवाड़ा, विदिशा, कटनी, धार, इन्दौर, सिंगरोली, नरसिंहपुर, दमोह, शहडोल, रायसेन एवं खरगोन जिलों की पटवारी हल्का स्तर की संशोधित संलग्न सूची एवं जिला मण्डला की तहसील नैनपुर के ग्राम नैनपुर, पटवारी हल्का क्रमांक 33 में फसल सोयाबीन को निरस्त कर शेष जिलों की सूची अनुसार उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना मौसम खरीफ 2014 की पटवारी हल्का स्तर की संशोधित सूची

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
				पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का
दतिया	बड़ौनी	बिल्हारीखुर्द	20	बड़गौर	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			23	रावबुजुर्ग	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			24	बिल्हारीखुर्द	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			25	सनाई	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			30	जनौली	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			31	गोधारी	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			33	सहदौरा	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			34	लमकना	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			35	भासड़ाखुर्द	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			36	भासड़ाकलां	धान सिंचित	--	--	--	--	--
शाजापुर	कालापीपल	02-अरनियाकलां	30	जाबडियाभील	--	--	सोयाबीन	--	--	--
			31	भरडी	--	--	सोयाबीन	--	--	--
			32	सिलोदा	--	--	सोयाबीन	--	--	--
			33	धुबेटी	--	--	सोयाबीन	--	--	--
			34	मादलाखेडी	--	--	सोयाबीन	--	--	--
			35	फरड	--	--	सोयाबीन	--	--	--
			36	बमूल्यामाछली	--	--	सोयाबीन	--	--	--
			37	बेरछादातार	--	--	सोयाबीन	--	--	--
			38	रोसला	--	--	सोयाबीन	--	--	--
			39	हडलायखुर्द	--	--	सोयाबीन	--	--	--
			40	अरन्याकलां	--	--	सोयाबीन	--	--	--
			41	तिलावदमैना	--	--	सोयाबीन	--	--	--
			42	रोलाखेडी	--	--	सोयाबीन	--	--	--
			43	अलीसरिया	--	--	सोयाबीन	--	--	--
			44	जाबडियाधरवास	--	--	सोयाबीन	--	--	--
45	पांचानेर	--	--	सोयाबीन	--	--	--			

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
			46	कोलया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			47	ढोटी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			48	खमलाय	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			49	रनायल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		02.अण्डेरिया	35	अमलाय	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			36	डूगलाय	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			37	उचोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			38	बड़ोदरानी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			39	निवालिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			40	हजलायकलां	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			41	खाटसूर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			42	मुगोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			43	निशाना	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			44	ढाहलाघोसी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			45	पंचडहेरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			46	खेजडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
होशंगाबाद	इटारसी	इटारसी	2	बोरतलाई	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			3	धुरपन	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			5	तीखड	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			8	डोबी उर्फ तालपुरा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			9	जमानी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			15	रैसलपुर	धान सिंचित	-	-	-	-	-
		रामपुर	16	तारारोडा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			17	लोहारियाकलां	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			18	पाहनबररी	धान सिंचित	-	-	-	-	-

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबी न	तुअर	मक्का	बाजरा
			19	रामपुर	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			20	सिलारी	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			22	बिछुआ	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			23	सोनतलाई	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			24	बेलावाडा	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			25	गजपुर	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			26	चिल्लई	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			27	गुरा	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			28	दमदम	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			29	सनखेडा	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			30	सोमलवाडाखुर्द	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			31	चौदोन	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			32	कांदईकला	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			34	34 नागपुरकलों	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			35	पौंडुखेडी	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			36	घाटली	धान सिंचित	--	--	--	--	--
		केसला	37	पथरोडा	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			38	जुझारपुर	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			39	देहरी	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			40	गोचीतरौंदा	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			41	पीपलढाना	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			42	ताकू	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			43	केसला	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			44	पिपरियाकलों	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			45	मोरपानी	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			46	भरकदा	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			48	सहेही	धान सिंचित	--	--	--	--	--
			49	चारटेकरा	धान सिंचित	--	--	--	--	--

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
			51	पिपरियारखुर्द	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			52	छीतापुर	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			53	चौदकिया	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			54	साधपुरा	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			55	कालाआखर	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			56	चोकीपुरा	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			57	सिलवानी	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			58	दौंडीवाडा	धान सिंचित	—	—	—	—	—
	होशंगाबाद	होशंगाबाद 01	5	पालनपुर	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			7	रोहना	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			8	खेडला	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			10	रसूलिया	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			11	मालाखेडी	धान सिंचित	—	—	—	—	—
		होशंगाबाद 2	22	पौजराकला	धान सिंचित	—	—	—	—	—
	सोहागपुर	धर्पाडकला	1	रेवाबनखेडी	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			3	भटगांव	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			4	सौसरखेडा	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			5	मुडियाखेडा	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			6	ईसरपुर	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			7	लखनपुर	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			9	रानिगोहान	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			10	ठीकरी	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			11	भीलाडिया	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			12	भौंखेडीकलों	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			16	बोडनागुर्जर	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			17	पामली	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			18	नगतरा	धान सिंचित	—	—	—	—	—
		सोहागपुर	21	बारंगी	धान सिंचित	—	—	—	—	—

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची							
				जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन
			23	पालादेवरी	धान सिंचित	—	—	—	—	—	—
			24	सेमरीहरचेंद	धान सिंचित	—	—	—	—	—	—
			28	बोंसखेडा	धान सिंचित	—	—	—	—	—	—
			37	गुन्दरई	धान सिंचित	—	—	—	—	—	—
			38	चारगोंव	धान सिंचित	—	—	—	—	—	—
			39	नवलगोंव	धान सिंचित	—	—	—	—	—	—
			40	करनपुर	धान सिंचित	—	—	—	—	—	—
		शोभापुर	41	शोभापुर	धान सिंचित	—	—	—	—	—	—
			43	नीमनमूढा	धान सिंचित	—	—	—	—	—	—
			46	चौंदीखेडी	धान सिंचित	—	—	—	—	—	—
			47	महुआखेडा	धान सिंचित	—	—	—	—	—	—
			51	अजेरा	धान सिंचित	—	—	—	—	—	—
			52	मौछा	धान सिंचित	—	—	—	—	—	—
			53	तिघडा	धान सिंचित	—	—	—	—	—	—
			54	काजलखेडी	धान सिंचित	—	—	—	—	—	—
			55	चेंदेरी	धान सिंचित	—	—	—	—	—	—
			56	ढिकवाडा	धान सिंचित	—	—	—	—	—	—
			58	रानीपिपरिया	धान सिंचित	—	—	—	—	—	—
			59	मोकलवाडी	धान सिंचित	—	—	—	—	—	—
			60	निवारी	धान सिंचित	—	—	—	—	—	—
			61	बमौरी	धान सिंचित	—	—	—	—	—	—
			62	मलमेशरा	धान सिंचित	—	—	—	—	—	—
			63	बरुआढाना	धान सिंचित	—	—	—	—	—	—
	पिपरिया	पिपरिया	24	पोसेरा	धान सिंचित	—	—	—	—	—	—
			27	पारखी	धान सिंचित	—	—	—	—	—	—
			28	कन्हवार	धान सिंचित	—	—	—	—	—	—
		तरौनकलौ	46	लौंझी	धान सिंचित	—	—	—	—	—	—

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-- 2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
	बनखेड़ी	उमरधा	3	परसवाडा	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			4	पुरेनाकला	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			6	सलैयाकिशोर	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			8	निंबोरा	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			9	सेमखेडा	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			12	डूमर	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			13	पुरेनारंधीर	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			14	बारछी	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			17	जमुनियारंधीर	धान सिंचित	—	—	—	—	—
		बनखेड़ी	45	पांजरा	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			46	कलकूही	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			48	नयागाँव	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			49	महुआखेडा	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			50	पडरईठाकुर	धान सिंचित	—	—	—	—	—
			56	डँगरहाई	धान सिंचित	—	—	—	—	—
झाबुआ	पेटलावद	पेटलावद	1	बामनिया	—	धानअसिंचित	सोयाबीन	—	—	—
			2	मुलथानियां	—	धानअसिंचित	सोयाबीन	—	मक्का	—
			3	रामपुरिया	—	धानअसिंचित	सोयाबीन	—	मक्का	—
			4	अमरगढ	—	धानअसिंचित	सोयाबीन	—	—	—
			5	असालिया	—	धानअसिंचित	सोयाबीन	—	—	—
			6	दुलाखेड़ी	—	धानअसिंचित	सोयाबीन	—	मक्का	—
			7	नगरपंचायत पेटलावद	—	धानअसिंचित	सोयाबीन	—	—	—
			8	करडावद	—	धानअसिंचित	सोयाबीन	—	मक्का	—
			9	केशरपुरा	—	धानअसिंचित	सोयाबीन	—	—	—
			10	रामगढ	—	धानअसिंचित	सोयाबीन	—	—	—
			11	देहंडी बडी	—	धानअसिंचित	सोयाबीन	—	मक्का	—
			12	गेहण्डी	—	धानअसिंचित	सोयाबीन	—	मक्का	—

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची							
				जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन
			13	मोईचारणी	--	धानअसिंचित	सोयाबीन	--	मक्का	--	
			14	गोदडिया	--	धानअसिंचित	सोयाबीन	--	मक्का	--	
			15	करबड	--	धानअसिंचित	सोयाबीन	--	मक्का	--	
			16	गंगाखेडी	--	धानअसिंचित	सोयाबीन	--	--	--	
			17	मोर	--	धानअसिंचित	सोयाबीन	--	मक्का	--	
			18	घुघरी	--	धानअसिंचित	सोयाबीन	--	मक्का	--	
			19	रूणजी	--	धानअसिंचित	सोयाबीन	--	मक्का	--	
			20	गुणावद	--	धानअसिंचित	सोयाबीन	--	मक्का	--	
			21	हनुमन्त्या	--	धानअसिंचित	सोयाबीन	--	मक्का	--	
			22	मठमठ	--	धानअसिंचित	--	--	मक्का	--	
			23	माडन	--	धानअसिंचित	सोयाबीन	--	मक्का	--	
			24	सारंगी	--	धानअसिंचित	सोयाबीन	--	मक्का	--	
			25	छोटा बोलासा	--	धानअसिंचित	सोयाबीन	--	मक्का	--	
			26	टमरिया	--	धानअसिंचित	सोयाबीन	--	मक्का	--	
			27	बावडी	--	धानअसिंचित	सोयाबीन	--	--	--	
			28	वाछीखेडा	--	धानअसिंचित	सोयाबीन	--	मक्का	--	
			29	डावडी	--	धानअसिंचित	सोयाबीन	--	मक्का	--	
			30	मोहनपुरा	--	धानअसिंचित	सोयाबीन	--	--	--	
			31	बैगनवडी	--	धानअसिंचित	सोयाबीन	--	--	--	
			32	कसारवडी	--	धानअसिंचित	सोयाबीन	--	मक्का	--	
			33	गांगडी	--	धानअसिंचित	--	--	मक्का	--	
			34	दोडायता	--	धानअसिंचित	सोयाबीन	--	मक्का	--	
सीधी	गोपदबनास	सेमरिया	40	तेन्दआ	--	धानअसिंचित	--	--	--	--	
		सीधी गिर्द प्रथम	79	पिपरोहर	--	धानअसिंचित	--	--	--	--	
			91	सिरसी	--	--	--	--	मक्का	--	
	चुरहट	चुरहट	26	कुशपरी	--	धानअसिंचित	--	--	--	--	
			31	लहिया	--	धानअसिंचित	--	--	--	--	

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
	मझोली	मझोली	27	देवई	--	--	--	--	मक्का	--
		मडवास	41	जोडोरी	--	--	--	तुअर	--	--
	सिंहावल	अमिलिया	44	गेरूआ	धान सिंचित	--	--	--	--	--
		देवगंवा	52	नकझरकलां	धान सिंचित	--	--	--	मक्का	--
			92	पोडी	धान सिंचित	--	--	तुअर	--	--
	रामपुर नेकिन	रामपुर नेकिन	3	खारा	धान सिंचित	धानअसिंचित	--	--	--	--
छिन्दवाडा	चाँद	चाँद			धान सिंचित					
			00042	पाल्हेरी	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00043	बाँका नागनपुर	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00044	पालादोन	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00045	खूट पिपरिया	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00046	बरेलीपार	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00047	मोरखा	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00048	सीदप	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00049	औरिया	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00050	हिरिं	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00051	साँख	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00052	देवरी माल	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00053	आमाझिरी	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00054	राजलवाडी	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00055	परसोली	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00056	झिरिया	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00057	पांजरा	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00058	चिखली खुर्द	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00059	हरनाखेडी	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00060	खैरी रानी	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00061	बाडीवाडा	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00062	लोनी कर्लो	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
			00063	कौआखेडा	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00064	मोघर	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00065	चौंद	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00066	बम्हनी दूरा	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00067	नौलाझिर	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00068	परसगाँव सरा	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00069	नीलकंठी खुर्द	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00070	निशान जानोजी	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00071	नवेगाँव गौंड	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00072	सालई छिन्दी	धान सिंचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00073	सटोटी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00074	दिलावर मोहगाव	-	-	-	-	मक्का	-
			00075	गुमगाँव दावाझिर	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00076	बतरी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00077	तितरी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00078	बादगाँव	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00079	लालगाँव	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00080	मेघदौन	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00081	रमपुरी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00082	पौनिया	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00083	पंचगाँव	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00084	बम्हनी लाला	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00085	सिंधोडी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00086	सिरस	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00087	साजपानी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00088	पिपरिया खाती	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00089	टाँप	-	-	-	-	मक्का	-
			00090	बाँसखेडा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00091	जमतरा	-	-	-	-	मक्का	-
			00092	हलालखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा-1	00018	पखडिया	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00019	छिन्दवाड़ा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00020	सिवनीप्राणामोती	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00021	सोनाखार	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00023	लहगड्डुआ	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00024	रोहना खुर्द	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00025	केवलारी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
			00026	कचरिया	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00027	बम्हनी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00028	कपरवाडी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00029	झिरलिंगा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00030	चारगाँव प्रहलाद	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00031	सिवनी मेघा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00032	पिपरिया लालू	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00033	लकडाई जम्होडी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00034	सारना	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00035	बनगाँव	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00036	जमुनिया	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00037	राजाखोह	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00038	सिहोरा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00039	डांगावानी पिपरिया	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00040	थांवरी टेका	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00041	मोहगाँव	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00042	भूतेरा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00043	ककई	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00045	बोहना	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00046	काराघाट	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00047	नेर	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00048	चनिहया कलों	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00049	खैरी भूताई	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00050	रामगढी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00051	घाट पिपरिया	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00052	चन्हिया खुर्द	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00053	उमरिया ईसरा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00054	रंगीना खापा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00055	पुलपुलडोह	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00056	झाझरिया खटिया	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00057	धमनियां	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00058	शहपूरा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00059	सुसरई	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00060	पिन्डरई	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00061	भानादेही	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00062	माल्वाडा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00063	सोनपुर	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00064	बिजेपानी	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
			00065	कोटलाबर्वा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00066	थांवरी कलों	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00067	कुहिया	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00068	भाजीपानी कलों	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00069	खापा कलों	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00070	उमरहर	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00072	चारगोंव	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00073	साख	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00074	उभेगोंव	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00075	गोदरा	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
	हरई		0003	ओझलढाना	-	-	-	-	मक्का	-
			0004	गांगई	-	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			0005	भैंसादण्ड	-	-	-	-	-	-
			0007	कामठी	-	-	-	-	मक्का	-
			0008	भोईपार	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			0009	चुरी साजवा	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00010	सालढाना	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00011	बटकाखापा	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00012	आंचलकुण्ड	-	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00013	बाँका	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00014	बेलपठार	-	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00015	दामाखोह	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00016	झिरना	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00017	कोठिया	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00018	मनकवाडी	-	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00019	सगोनिया	-	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00020	धनोरा	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00021	भुमका	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00022	जिल्हेरी	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00023	भालपानी	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00024	खिरदा	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00025	अण्डोल	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00026	पलानी	-	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
			00027	तिन्सई	-	-	-	-	मक्का	-
			00028	थारवा	-	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00029	मडई	-	-	-	-	मक्का	-
			00030	चोपना	-	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00031	देवरी	-	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00032	बिछुआ	-	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00033	चुरीं खुई	-	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00034	सामरबोह	-	धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
	हरई	हरई	00052	सलैया बुलाकी	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
सागर	खुरई	खुरई	00024	बागथरीपटटी खुरई	-	-	सोयाबीन	-	-	-
विदिशा	विदिशा	विदिशा 02	00013	छीरखेड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00062	तमोरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	कुरवाई	कुरवाई 01	0001	करहैया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			0002	करईबेरखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			0003	छीरखेड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			0004	धारुखेड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00028	लायरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00032	पनावर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00033	रूसिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00034	ईसाखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00035	पैराखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00036	मेहलुआ	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00037	रोशनपिपरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00038	माला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00039	गिथौली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00040	कूहन	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00041	विशनपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00042	पीकलोन	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00043	लेटनी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00044	नगवासा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00045	देवली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00046	सिरनोटा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00047	भैंसवाहा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00048	गुदावल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00049	कौसी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00050	बरुअल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00051	तलापार	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00052	सीहोरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-

DAGWA D...

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची									
				जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का
			00053				बरेठा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00054				बजीराबाद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00055				सिरावली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	पठारी	पठारी	00001				शहरवासा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00002				दतेरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00003				उकावद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00004				श्यामपुर गुदावल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00005				भालबामोरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00006				दुधावरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00007				मनेशा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00008				सिमरधान	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00009				बन्द्रादटा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			000010				धामोनीपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			000011				बाबईखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			000012				रामगढ़	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			000013				खजूरियापठारी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			000014				विसलोनी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			000015				जाजपोन	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			000016				पठारी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			000017				छपारा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			000018				मथुरापुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			000019				बरखेड़पठारी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			000020				बड़ोह	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			000021				कांकलखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	सिरोंज	दीपाखेड़ा	000088				सियलपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			000034				परसोरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			000036				बरेज	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			000077				गुलाबगंज	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			000078				भटोली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			000079				इकोदिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			000080				देहरीजागीर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			000081				बेरखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			000082				इकलोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			000083				रूसल्लीदामा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			000084				पथरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			000085				करबाताल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			000086				कुंजा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			000087				महादेवखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			000089				सोना	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			000090				घटवार	-	-	सोयाबीन	-	-	-

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची								
				जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर
			000091	सुल्तानपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			000092	सफदलपुरताल	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			000093	उनारसीताल	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			000094	घोसुआताल	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
		सियलपुर 05	000035	बगरोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			000041	कराखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			000042	चाठोली	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			000057	दामोदरखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			000058	दीपानखेड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			000062	त्रिभुवनपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			000063	ललितपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			000064	बामोरीशाला	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			000065	सालपुरकलां	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			000066	करैयाहाट	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			000067	रिनिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			000068	प्याराखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			000069	जगथर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			000070	दीगनाखेड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			000071	गोपालनगर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			000072	रुसल्लीघाट	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			000073	हरगनाखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			000074	बड़ोदाताल	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			000075	बमूरियाताल	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
कटनी	ढीमरखेड़ा	उमरिया पान	000026	देवरीपाठक	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-	-
	बडवारा	बडवारा	00004	भंगवारा	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-	-
			000020	-	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-	-
	मुडवारा (कटनी)	मुडवारा-2	000068	DHAVAIYA	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-
			000069	UBARA	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-
			000071	GAIRTALAI	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-
			000073	KUTESHWAR	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-
			000074	ITORO	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-
	बम्होरीबंद	बम्होरीबंद	000024	पाकर	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-
	बरही	बरही	00005	CHHIDAHAIPIPRIA	धान सिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00006	LURMI	धान सिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
			148	शिकारपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			149	कछाल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			151	भीलतलवाडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			155	मांडव	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			157	उमरपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			162	सोडपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			163	काकलपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			171	भीलकुण्डा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			175	मेवासजामन्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			176	बजारीपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			179	गुलरझिरीपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			180	छोटा जामन्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			181	इमलीपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			154	तीतीपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			183	पलासमाल	-	-	-	-	मक्का	-
			153	सुलीबर्डी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	मनावर	बाकानेर	114	टवलईबुजंग	-	-	-	-	मक्का	-
		मनावर	1	चिराखान	-	-	-	-	मक्का	-
			6	उदियापुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	सरदारपुर	अमझेरा	77	उण्डेली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			78	खरेली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			96	सुल्तानपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		सरदारपुर	36	बयडीपाडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
दमोह	पटेरा	कुम्हारी	00043	सलैया	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00044	जमूनियां	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00045	बमनी	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00046	बेलखेड़ी	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00047	हिनीती	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00051	कुम्हारी	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00052	कुलुवा	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00053	मझोली	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00054	देवरी रतन	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00055	धनगुवां	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00056	पटना	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00057	खमरिया	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00058	माड़ाघाट	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00059	मझगुवां हंसराज	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00060	पटेरिया	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00061	सागोनी	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
		देवडोगरा	00018	कुडई	-	-	सोयाबीन	-	-	-

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
			00019	मंगोलपुर	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00033	देवडोगरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00034	हरपालपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00035	निमरमुन्डा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00036	भरतला	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00037	नागमणि	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		पटेरा	00021	छेवलादुबे	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00024	पंडरी हजपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00025	कुवरपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00027	रमगढ़ा	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00028	सिंगपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00029	पटेरा खास	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00030	बमनपुरा	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00032	राजाबन्दी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00041	बिलगुवां	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00048	मुआरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00049	नयागांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		लुहारी	0001	घटिया	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			0002	कूटरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			0003	रोढ़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			0004	पटना	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			0005	लुहारी	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			0007	कुआंखेड़ा बाजी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			0008	मझगुवां पतोल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			0009	सोजना	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00010	गाता	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
			00011	लुहंरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00013	कजरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00014	बिजोरी पाठक	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00015	बनगांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00017	रेवझाकला	-	-	-	तुअर	-	-
शहडोल	गोहपारू	खन्नीधी	00001	सन्ना प.ह.नं. 1	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00002	विसनपुरवा प.ह.नं. 2	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00003	अकुरी प.ह.नं. 3	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00004	ददरा टोला प.ह.नं. 4	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00005	खोहरी प.ह.नं. 5	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00006	रतहर प.ह.नं. 6	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00007	मलमाधर प.ह.नं. 7	-	धानअसिंचित	-	-	-	-

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान अ:सिंचित	सोयाबी न	तुअर	मक्का	बाजरा
			00008	खांड प.ह.नं. 8	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00009	बरहा प.ह.नं. 09	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00010	खन्नीधी प.ह.नं. 10	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00011	नवागांव प.ह.नं. 11	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00012	लोढ़ी प.ह.नं. 12	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00013	पलसऊ प.ह.नं. 13	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00014	सरसी प.ह.नं. 14	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00015	पाथर प.ह.नं. 15	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00016	दुलादर प.ह.नं. 16	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
		गोहपारु	00034	रामपुर प.ह.नं. 34	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00035	खाम्हा प.ह.नं. 35 दियापीपर हल्का नं. 35	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00036	सुडवार प.ह.नं. 39	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00037	मोहतरा प.ह.नं. 37	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00038	असवारी प.ह.नं. 38	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00039	गोहपारु प.ह.नं. 39	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00040	सेमरा प.ह.नं. 40	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00041	करूआ प.ह.नं. 41	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00042	देवदहा प.ह.नं. 42	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00043	देवरी प.ह.नं. 43	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00044	पटोरी प.ह.नं. 44	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00045	बोचकी प.ह.नं. 45	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00046	सकरिया प.ह.नं. 46	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00047	गोडारु प.ह.नं. 47	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00048	पैलवाह प.ह.नं. 48	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00049	करीं प.ह.नं. 49	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00050	दियापीपर प.ह.नं. 50	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00051	हरहाटोला प.ह.नं. 51	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
		घुहिरी	00017	उमरिया प.ह.नं. 17	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00018	बरकोडा प.ह.नं. 18	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00019	भुरसी प.ह.नं. 19	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00020	महरोई प.ह.नं. 20	-	धानअसिंचित	-	-	-	-

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबी न	तुअर	मक्का	बाजरा
			00021	पोड़ी प.ह.नं. 21	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00022	भदवाही प.ह.नं. 22	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00023	हरी प.ह.न. 23	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00024	उचेहरा प. ह. नं. 24	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00025	भरी प.ह.न. 25	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00026	नवाटोला प.ह.न. 26	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00027	चुहिरा प.ह.नं. 27	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00028	चुहिरा प.ह.नं. 28	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00029	तेदरा प. ह. नं 29	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00030	सगरा प.ह.न. 30	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00031	मझौली प ह नं 31	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00032	बरेली प.ह.न. 32	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00033	बरमनिया प.ह.न. 33	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
		लफदा	00052	कनवाही प.ह.न.52	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00053	गुरा प.ह.न. 53	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00054	देवगढ़ प.ह.न.54	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00055	लफदा प.ह.न.55	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00056	गूढा प.ह.न. 56	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00057	धनगर्वो प.ह.न.57	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00058	देवरी प.ह.न. 58	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
	जैतपुर	केशवाही	00071	मलया प.ह.न. 71	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00072	मझौली प.ह.न. 72	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00073	झिरिया प.ह.न. 73	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00074	हरी प.ह.न. 74	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00075	सकरा प.ह.न. 75	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00076	बरगवां प.ह.न. 76	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00077	सिंघली प.ह.न.77	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00078	करावन प.ह.न.78	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00079	बघरवार प.ह.न.79	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00080	कुम्हारी प.ह.न.80	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00081	केशवाही प.ह.न.81	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00082	जमुनिहा प.ह.न.82	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00083	धनौरा प.ह.न. 83	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00084	मजीरा प.ह.न. 84	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00085	जमगांव प.ह.न.85	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
		घन्नाडी			-		-	-	-	-

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबी न	तुअर	मक्का	बाजरा
			00057	बहगड़ प.ह.न. 57	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00058	सेमरिहा प.ह.न.58	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00059	हेंधगला प.ह.न.59	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00060	निमूंहा प.ह.न.60	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00061	चन्नौड़ी प.ह.न. 61	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00062	भमला प.ह.न.62	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00063	घोरवे प.ह.न. 63	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00064	बैरिहा प.ह.न. 64	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00065	खरला प.ह.न. 65	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00066	देवरी प.ह.न. 66	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00067	बलबहरा प.ह.न.67	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00068	अमलई प.ह.न.68	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00069	ढोलकू प.ह.न. 69	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00070	गिरवा प.ह.न. 70	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
		जैतपुर	00017	चन्द्रपुर प.ह.न. 17	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00018	राघोपुर प.ह.न.18	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00019	कमता प.ह.न. 19	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00020	खोढरी प.ह.न.20	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00021	जैतपुर प.ह.न.21	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00022	पैरीबहरा प.ह.न.22	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00023	बिड़ौरी प.ह.न. 23	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00027	कदौड़ी प.ह.न. 27	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00028	बलभद्रपुर न०1.न 28	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00029	गलहथा प.ह.न.29	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00030	नवाटोला प.ह.न.30	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00031	सेजहाई प.ह.न. 31	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00024	साखी प.ह.न.24	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00025	नगपुरा प.ह.न. 25	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00026	खोहरा प.ह.न. 26	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
		बिजुरी	00032	छतई प.ह.न. 32	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00033	खम्हरिया प.ह.न.33	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00034	धुनघुटा प.ह.न.34	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00035	खरतौरा प.ह.न.35	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00036	बिजुरी प.ह.न. 36	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00037	रमनाकन्हेर प.ह.न.37	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00039	रैकोबा प.ह.न.39	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00040	दरसिला प.ह.न.	-	धानअसिंचित	-	-	-	-

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबी न	तुअर	मक्का	बाजरा
				40						
			00041	बिलटिकुरी प.ह.न.41	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00038	ममरा प.ह.न.38	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00042	कोलमी प.ह.न.42	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
		रसमोहनी	00001	भरुहा प.ह.न. 1	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00002	वरगवां प.ह.न.2	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00003	भोगडा प.ह.न.3	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00004	अमहा प.ह.न. 4	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00005	रसमोहनी न.5	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00006	टिकुरी प.ह.न.6	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00007	तितरा प.ह.न.7	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00008	बदौड़ी प.ह.न. 8	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00009	खैरहनी प.ह.न.9	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00010	नौगवां प.ह.न. 10	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00011	मोहतरा प.ह.न.11	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00012	घोघरी प.ह.न.12	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00013	मलया प.ह.न.13	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00014	कचहर प.ह.न.14	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00015	भठिया प.ह.न. 15	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00016	कोल्हुवा प.ह.न.16	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
		रूपौला	00043	गौडिनवूडा प.ह.न.43	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00044	कदमहा प.ह.न.44	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00045	टेंघा प.ह.न. 45	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00046	खांडा प.ह.न. 46	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00047	कुडडी प.ह.न. 47	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00048	रूपौला प.ह.न. 48	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00049	कोटा प.ह.न. 49	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00050	कुम्हेडिन प.ह.न.50	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00051	धुम्माडोल प.ह.न.51	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00052	कुडेली प.ह.न.52	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00053	चकौडिया प.ह.न.53	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00054	खाम्हीडोल प.ह.न.54	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00055	बोकरामार प.ह.न.55	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00056	शाहपुर प.ह.न.56	-	धानअसिंचित	-	-	-	-

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.न. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
	बुढार	खैरहा	00029	देवगवां प.ह.नं.29	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00030	सिरौंजा प.ह.नं.30	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00031	करकटी हल्का नं 31	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00032	खन्नाथ प.ह.नं.32	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00033	छिरहटी प.ह.नं.33	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00034	खैरहा प.ह.नं.34	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00035	धमनीकला प.ह.नं.35	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00036	सारंगपुर प.ह.नं.36	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
			00037	अरझुला प.ह.नं.37	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00038	लखवरिया प.ह.नं 38	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00039	धनीरा प.ह.नं 39	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00040	खोह प.ह.नं. 40	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
		धनपुरी	00019	.विक्रमपुर प.ह.नं 19	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00020	धनपुरा प.ह.नं.20	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00021	बरतरा हल्का नं.21	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00022	चिटहुला प.ह.नं.22	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00023	गोपालपुर प.ह.नं 23	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00024	सरईकांपा प.ह.नं 24	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00025	धनपुरी प.ह.नं.25	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00026	सिलपरी प.ह.नं.26	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00027	.बेम्हौरी प.ह.नं.27	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00028	बन्डीखुर्द प.ह.नं.28	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
		बुढार	00001	.नौगई प.ह.नं.1	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00002	.चंगेरा प.ह.नं.2	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00003	छांटा उर्फ नवाटोला प.ह.नं.3	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00004	बिरुहली प.ह.नं.4	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00005	चाका प.ह.नं.5	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00006	खम्हरींध प.ह.नं.6	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00007	बिछिया प.ह.नं 7	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00008	अतरिया प.ह.नं. 8	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00009	रामपुर प.ह.नं. 9	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00010	पडरिया प.ह.नं.10	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00011	बटुरा प.ह.नं.11	-	धानअसिंचित	-	-	-	-

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबी न	तुअर	मक्का	बाजरा
			00012	बकहो प.ह.नं.12	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00013	सावो प.ह.नं.13	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00014	जरवाही प.ह.नं.14	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00015	पकरिया प.ह.नं.15	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00016	सेमरा प.ह.नं.16	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00017	कटकोना प.ह.नं.17	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00018	बुढ़ार प.ह.नं. 18	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
	व्यौहारी	आखेटपुर	00059	बोडिडहा	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00060	पपरेड़ी	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00061	चरखी	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00062	पसगढ़ी	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00063	सरवाहीकला	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00064	बोचरो	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00065	आखेटपुर	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00066	खरपा	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00067	साखी	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00068	बरहाटोला	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00069	मैरटोला	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00070	भमरहा प्रथम	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00071	रसपुर	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00072	खडडा	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
		खांड	00035	बोकरा बोकरी	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00036	चरका	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00038	सतखुरी	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00040	चचाई	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00041	अनहरा	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00042	जगमल	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00043	भंवरहा	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00044	भन्नी	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00039	खांड	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
		बुडवा	00045	गाड़ा	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00046	कुम्हिया	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00047	रमपुरवा	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00048	सुखांड	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00049	गोपालपुर	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00050	झिरिया	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00051	बुडवा	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00052	समान	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00053	मगरदहा	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00054	धरी नं. २	-	धानअसिंचित	-	-	-	-

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची								
				जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर
			00055	चौरी	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00056	बैरिहाई	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00057	जनकपुर	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00058	देवरी	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-
		ब्योंहारी	00027	भोलहरी	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00028	खुटेहरा	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00029	कल्हारी	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00030	नोंदिया	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00031	ब्योंहारी	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00032	मुदरिया	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00033	खामडांड	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00034	मउ	-	धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-	-
	सोहागपुर	अमरहा	00048	केलमनियां प.ह.नं.	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			00049	पतखई प.ह.नं.49	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			00050	पठरा प.ह.नं. 50	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			00051	भमरहा प.ह.नं. 51	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			00052	.करुआताल प.ह.नं 52	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			00053	मइवा प.ह.नं.53	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			00054	भानपुर प.ह.नं. 54	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			00055	केरहा प.ह.नं. 55	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			00056	अमरहा प.ह.नं.56	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			00057	बमुरा प.ह.नं. 57	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			00058	.कठौतिया प.ह.नं.58	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			00059	सामतपुर प.ह.नं 59	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			00060	हरदी प.ह.नं. 60	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-	-
		कंचनपुर	00008	खेतौली प.ह.नं. 08	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00009	सेन्दुरी प.ह.नं. 08	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00010	पोगरी प.ह.नं. 10	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			00011	हरदी प.ह.नं.11	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			00012	नवलपुर प.ह.नं.12	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-	-
			00013	लालपुर प.ह.नं. 13	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00014	छाता प.ह.नं.14	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00015	उधिया प.ह.नं.15	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00016	कंचनपुर प.ह.नं.16	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00017	हरीं प.ह.नं. 17	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00018	धुरवार प.ह.नं. 18	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-
		सिंहपुर	00034	जुगवारी प.ह.नं.34	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-	-

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची								
				जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर
				00035	बंधवाबड़ा प.ह.न.35	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
				00036	झगरहा प.ह.न. 36	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
				00037	पचगांव प.ह.नं. 88	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
				00038	दूधी प.ह.नं.38	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
				00039	जोधपुर प.ह.नं.39	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
				00040	सिंहपुर हल्का नं	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
				00041	रैताझर प.ह.नं.41	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
				00042	पडमनिया खुर्द प.ह.नं.42	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
				00043	पडमनिया कलाप.ह.नं.43	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
				00044	नरगी प.ह.नं.44	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
				00045	बोडरी प.ह.नं.45	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-
				00046	मिठौरी प.ह.नं.46	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-
				0047	.हरीटोला प.ह.नं.47	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		सोहागपुर नं. 2		00002	नरवार प.ह.न. 02	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
				00003	छतवई प.ह.न. 03	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
				00004	बरुका प.ह.न. 04	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
				00005	देवगांवां प.ह.नं. 05	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
				00006	पटासी प.ह.नं. 06 पटासी प.ह.नं. 57	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
				00007	श्यामडीहखुर्द प.ह	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
				00001	बिजौरी प.ह.नं. 01	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		सोहागपुर नं.1		00019	. जमुई प.ह.नं.19	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
				00020	गोरतरा प.ह.नं.20	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
				00021	चांपा प.ह.नं. 21	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
				00022	कोटमा प.ह.नं.	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
				00023	मैकी प.ह.न. 23	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
				00024	पिपरिया प.ह.न.24	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
				00028	कल्याणपुर प.ह.नं. 28	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
				00029	सेन्दुरी प.ह.नं.29	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
				00030	खोल्हाड प.ह.न.30	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
				00031	चुनिया प.ह.नं 31	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
				00032	खम्हरियाकला प.ह.न. 83	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
				00033	मझगांवां प.ह.न.33	-	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा		00023	नोनिया बरेली	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-
				00026	बिजनहाई	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची							
				जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन
			00027	उडदमउ	धान सिंचित	-	-	-	तुअर	-	-
			00029	सिलारीकला	-	-	-	-	तुअर	-	-
			00031	रहली	-	-	-	-	तुअर	-	-
			00032	किरगीखुर्द	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-
			00033	बौरास	धान सिंचित	-	-	-	तुअर	-	-
			00034	चौरास	-	-	-	-	तुअर	-	-
			00035	अण्डिया	-	-	-	-	तुअर	-	-
			00036	केलकच्छ	धान सिंचित	-	-	-	तुअर	-	-
			00037	सतहरी	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-
			00038	बीसावाडी	धान सिंचित	-	-	-	तुअर	-	-
		कोडाजमुनिया	00055	रिछावर	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-
			00058	टिमरावन	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-
			00059	खिरेटी	धान सिंचित	-	-	-	तुअर	-	-
			00060	अलीवाडा	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-
			00062	डुंगरिया	धान सिंचित	-	-	-	तुअर	-	-
			00063	बरखन्दा	धान सिंचित	-	-	-	तुअर	-	-
			00065	पडरिया खुर्द	धान सिंचित	-	-	-	तुअर	-	-
			00066	चिखली	धान सिंचित	-	-	-	तुअर	-	-
			00068	करहैयाकला	धान सिंचित	-	-	-	तुअर	-	-
			00069	पडरईकला	-	-	-	-	तुअर	-	-
		छातेर	00001	कुचवाडा	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-
			00002	खुरसूरु	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-
			00003	पिपलियाकेव	धान सिंचित	-	-	-	तुअर	-	-
			00004	शहपुरा	धान सिंचित	-	-	-	तुअर	-	-
			00005	नूरनगर	धान सिंचित	-	-	-	तुअर	-	-
			00006	तिखावन	धान सिंचित	-	-	-	तुअर	-	-
			00007	बनखेडी	धान सिंचित	-	-	-	तुअर	-	-
			00008	आंवरिया	धान सिंचित	-	-	-	तुअर	-	-
			00009	छातेर	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-
			00012	भाडोन	-	-	-	-	तुअर	-	-
			00015	सिमरिया	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-
			00016	गायव्यान	धान सिंचित	-	-	-	तुअर	-	-
			00017	चंदली	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-
			00018	घाना बहेडि	धान सिंचित	-	-	-	तुअर	-	-
			00019	निबाडी	-	-	-	-	तुअर	-	-
			00022	पचामा	धान सिंचित	-	-	-	तुअर	-	-
		देवरी	00039	किरगीकला	धान सिंचित	-	-	-	तुअर	-	-
			00040	रमखिरिया	धान सिंचित	-	-	-	तुअर	-	-
			00041	बीझा	धान सिंचित	-	-	-	तुअर	-	-
			00042	कानीवाडा	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
			00043	बारहकला	धान सिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00044	अनधोरा	धान सिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00045	पतई	धान सिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00046	केकडझर	धान सिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00047	साईखेडझर	धान सिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00048	पांजरा	धान सिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00049	पिपलिया कला	धान सिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00050	वूधनवाडझर	धान सिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00051	देवरी	धान सिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00052	बम्होरी देवरी	धान सिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00054	दिधावन	धान सिंचित	-	-	तुअर	-	-
		देहगांव	00005	बनखेडी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00006	साकल	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00007	बनखेडी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00008	किरोदा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00009	हिनीतिया	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00010	आमखेडा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00014	दहगांव	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00015	मुडिसखेडा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
	गैरतगंज	उमरावगंज	00042	मकोड़िया	धान सिंचित	-	-	-	-	-
		औ. गंज	00015	इमलिया गोडी	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00019	गोतमपुर कालोनी	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00020	बमनई	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
		गौहरगंज	00031	भौजपुर	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00046	मुरहारी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00053	डोब	-	-	-	-	मक्का	-
			00054	पिलिया गोली	-	-	-	-	मक्का	-
			00055	अगरिया	-	-	-	-	मक्का	-
			00056	गौहरगंज	-	-	-	-	-	-
		चिकलोदकला	00061	कामतोन कासिया	-	-	-	-	मक्का	-
		मंडीदीप	00001	पोलाहा	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00002	नांदोर	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00003	बरखेडा सेतू	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00005	दहोद	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00006	पडोनिया	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00007	पिपलिया गज्जू	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00008	मंडीदीप	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00012	सिमरई	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00033	सतलापुर	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
			00034	कीरत नगर	-	धानअसिंचित	-	-	-	-

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
	बरेली	खरगोन	00004	अहमदपुर	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00005	खैरीमुगली	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00006	रजबाडा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00010	ऊटियाखुर्द	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00011	हरडोब	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00012	सिनवाह	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00043	टोंगा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
		बरेली								
			00013	उदयगिरी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00014	करमवाडा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00015	खपरिया खुर्द	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00016	मेहरङ्गगांवकला	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00018	गगनवाडा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00021	बरेली	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00022	धोखेडा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00023	कोटपार गणेश	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00025	समनापुर जागी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00027	गोल				तुअर	-	-
			00028	आरकक्षखुर्द				तुअर	-	-
			00029	दिमाडा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00030	सेमरीघाट	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00031	मोतलसिर	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00032	बगलवाडा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00036	भिलाडिया	धान सिंचित	-	-	-	-	-
		महेश्वर								
			00033	सतरावन	धान सिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00034	डूमर	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00035	घाट पिपरिया	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00046	कैलकछ	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00049	पांजराविजयसिंह	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00050	सोजनी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00051	खण्डराज	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00052	बम्होरीपाण्डा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00053	मांगरोल	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00054	बागपिपलिया	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00056	बरहाकला	धान सिंचित	-	-	-	-	-
	बैंगमगंज	तुलसीपार	00021	महगंवा टप्पा सुनेहरङ्ग	धान सिंचित	-	-	-	-	-
		बैंगमगंज	00005	कीरतपुर	धान सिंचित	-	-	तुअर	-	-

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014- 2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
				पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबी न	तुअर	मक्का
			00015	पलोहा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
		सुल्तानगंज	00045	घानाकला	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00061	शाहपुर सुल्तानपुर	धान सिंचित	-	-	-	-	-
	रायसेन	दीवानगंज	00011	बडोदा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00012	बागोद	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00013	शाहपुर	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00015	मेढकी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00019	चिरहोली	धान सिंचित	-	-	-	-	-
		रायसेन			धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00046	धनीयाखेडी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00047	रायसेन	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00048	जहूपथरठ	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00050	परवरीया	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00051	जेहगांव	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00052	उमरिया	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00053	सनखेडी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00054	कानपोहरा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00056	डाबर इमलिया	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00057	भादनेर	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00058	पठारी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00059	मानपुर	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00060	मुछेल	धान सिंचित	-	-	-	-	-
		साँची	00022	गुलगांव	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00023	उचेर	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00024	मडवाई	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00025	साँची	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00026	ढकना चपना	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00027	चिरोली	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00031	मारझी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00032	सदालतपुर	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00033	सेवासनी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00034	सिलपुरी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00038	खरवाई	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00039	रंगपुरझर केसरी	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00040	नांद	धान सिंचित	-	-	-	-	-
		सांचेत	00061	मउजागीर	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00062	नयापुरा	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00063	हीनोतिया	धान सिंचित	-	-	-	-	-
			00064	चिलवाहा	धान सिंचित	-	-	-	-	-

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची								
				जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर
			00065	बनखेडी	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-	-
			00066	बडोदझूर साछ	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-	-
			00067	अंडोल	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-	-
			00068	हकीमखेडी	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-	-
			00069	पीपलखेडी	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-	-
			00070	गयारसा बाद	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-	-
			00071	सांचेत	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-	-
			00072	निसददयदीखेडझूर	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-	-
			00073	काठ	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-	-
			00074	मुगालिया	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-	-
			00075	नक तरझूर	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-	-
			00076	खडैरा	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-	-
			00078	गुदावल	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-	-
			00079	सिरसोदझूर	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-	-
	सुल्तानपुर	इटखेडी	00014	गोरखपुर	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-	-
			00017	उमरई बेहरा	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-	-
			00018	खपरिया	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-	-
			00019	बेरखेडी कलां	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-	-
			00020	सांतरा	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-	-
			00022	चोरा कमरोरा	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-	-
			00023	भरतीपुर	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-	-
		सुल्तानपुर	00001	बिनेका बोरपानी	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-	-
			00003	खमरिया	धान सिंचित	-	-	-	-	-	-	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी इन्को की सूची

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली उपयुक्त फसलों की इन्कोवार सूची	सोयाबीन	तुजर	मक्का	बाजरा
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी इन्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित		
इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर-2	00017	निहालपुरमंडी	-	-	सोयाबीन	-
			00023	असरावदखुर्द	-	-	सोयाबीन	-
			00024	मिर्जापुर	-	-	सोयाबीन	-
			00025	रालामंडल (वृत्त 2)	-	-	सोयाबीन	-
			00031	निपानिया	-	-	सोयाबीन	-
			00036	तसूडियामोरी	-	-	सोयाबीन	-
			00037	अरंडिया	-	-	सोयाबीन	-
			00057	मनडलानावता	-	-	सोयाबीन	-
		कनाडिया-3						
			00038	पानोड	-	-	सोयाबीन	-
			00039	झतारिया	-	-	सोयाबीन	-
			00040	बिसनखेडा	-	-	सोयाबीन	-
			00041	खातिपित्तया	-	-	सोयाबीन	-
			00042	बुरानाखेडी	-	-	सोयाबीन	-
			00043	हरनखेडी	-	-	सोयाबीन	-
			00044	सेमलवाघाड़	-	-	सोयाबीन	-
			00046	गोरिया	-	-	सोयाबीन	-
			00047	घोहानखेडी	-	-	सोयाबीन	-
			00049	कनाडिया	-	-	सोयाबीन	-
		खुईल-5						
			00045	गोगाखेडी	-	-	सोयाबीन	-
			00069	सिन्धीबडोदा	-	-	सोयाबीन	-
			00070	काजिपलासिया	-	-	सोयाबीन	-
			00071	खुईलबजुर्ग	-	-	सोयाबीन	-
			00072	खुईलखुर्द	-	-	सोयाबीन	-
			00073	अरन्या	-	-	सोयाबीन	-
			00074	गेहली	-	-	सोयाबीन	-
			00075	बावलन्याखुर्द	-	-	सोयाबीन	-
			00076	मोरोदहाट	-	-	सोयाबीन	-
			00080	पेडमी	-	-	सोयाबीन	-
			00081	सेमलन्यारायमल	-	-	सोयाबीन	-
			00082	खण्डेल	-	-	सोयाबीन	-
			00083	शिवनी	-	-	सोयाबीन	-
		मिर्घाली-4						
			00048	बेगमखेडी	-	-	सोयाबीन	-
			00050	गोरिपित्तया	-	-	सोयाबीन	-
			00051	असरावदबजुर्ग	-	-	सोयाबीन	-
			00052	बडियाकिमा	-	-	सोयाबीन	-
			00059	दुधिया	-	-	सोयाबीन	-
			00060	उमरियाखुर्द	-	-	सोयाबीन	-
			00061	जामन्या खुर्द	-	-	सोयाबीन	-
			00062	बिहाडिया	-	-	सोयाबीन	-
			00063	तिल्लौर खुर्द	-	-	सोयाबीन	-
			00064	काचरोट	-	-	सोयाबीन	-
			00065	तिल्लौरबजुर्ग	-	-	सोयाबीन	-
			00066	जुण्डलादीस्तदार	-	-	सोयाबीन	-
			00067	सोनवाय	-	-	सोयाबीन	-
			00068	धमनाय	-	-	सोयाबीन	-
			00077	पिबडाय	-	-	सोयाबीन	-
			00078	पिपल्दा	-	-	सोयाबीन	-
			00079	कम्पेल	-	-	सोयाबीन	-
			00053	मिर्घालीहल्सी	-	-	सोयाबीन	-
			00058	सनावदिया	-	-	सोयाबीन	-
		राउ-1						
			00001	छोटा बांगडदा	-	-	सोयाबीन	-
			00002	मैनोट	-	-	सोयाबीन	-
			00003	रिजलाय	-	-	सोयाबीन	-
			00004	कलारिया	-	-	सोयाबीन	-
			00005	बिसनावदा	-	-	सोयाबीन	-
			00006	सिहासा	-	-	सोयाबीन	-
			00007	बांक	-	-	सोयाबीन	-
			00009	अहिरखेडी	-	-	सोयाबीन	-
			00010	नावदापंध	-	-	सोयाबीन	-
			00011	सिन्दोडा	-	-	सोयाबीन	-

		00012	नरसाय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	रंगदासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	राऊ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	माधवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	कैलौदकर्ताल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	मोरोद नेहरु	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	उमरीछेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
	देवासपुर							
	गीतमपुरा-1							
		00001	गिरोता	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	पिनलवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	फुलान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बहिरामपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	तलावली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	छडोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	जलोदियाजान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	धर्मट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	घान्दनखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	पाडन्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	भील बडाली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	कस्बा गीतमपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	बछेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	रसायता	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	अन्याबा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	सानेर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	फरकोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	मैडकवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	पिनावली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	कडीदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	गुडर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	रुदाख्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	सुनाता	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	कटकोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	काई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	जनालपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	गोकुलपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	भिडीना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	जलोदियापार	-	सोयाबीन	-	-	-
	देवासपुर-2							
		00030	तिन्बोदीपार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	सेमदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	खटवाडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	कस्बा देवासपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	बिरगोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	बनेडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	खिमताबदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	अटरेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	करजोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	देवाराखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	बान्वाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	शाहपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	नान्दा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	गंगजलखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	बडोली हीज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	तकीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	खडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	खजरया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	बेगन्दा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	आरोदाकोट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	छोटी कलमेर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	घोदर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	हरनासा	-	सोयाबीन	-	-	-
	बेटमा-3							
		00054	जलोदियाघंघ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	संगडीद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	दीलताबाद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	रंगवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	सेजवानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	रामबडोदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	घाटाबिलोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	संगवी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	मेठवाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	झुलारिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	रावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	सनाबदा	-	सोयाबीन	-	-	-

		00069	रोताय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	बोरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	बोरती	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	औरंगपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	राजपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	तर्तडीपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	कालासुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	कस्बा बेटमा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	वीर पिपल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	सतमपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	रणमल बिल्सीद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	काली बिल्सीद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00081	चिराखान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00082	बजरगपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00083	बिजेपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00084	मांचल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00085	गलोडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00086	धरावरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00087	धन्नड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00088	बगोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	घटवाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	धिकलीदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	शिवगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
मह								
	मह-1							
		00001	भेँसलाय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	सोनवाय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	पिगडुबर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	नावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	महगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	सातेर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	कवटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	टिही	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	भाटखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	बंजारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	अवलाय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	पंजरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	फफुन्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	सिलोदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	सीतापाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	नोटेड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	भिर्वाली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	क्याली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	बैरछ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	कैलोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	जामली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	अकवी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	डोंगरगांव	-	-	-	-	-
		00027	गांगल्याखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	गवती पलासिया	-	सोयाबीन	-	-	-
	मानपुर-2							
		00029	बडगाँदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	मेण	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	यशवंत नगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	राजपुर कुटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	हिसलपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	कदमपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	जाकुखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	दुर्जनपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	शेरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	जाफराबाद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	कांकरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	मानपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	काली किराय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	रामपुरिया खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	गोकल्या कण्ड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	सिहीदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	कौसानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	खुर्दी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	छपपरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	जामबुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	बशीपिपरी	-	सोयाबीन	-	-	-
	सिमरौम-3							
		00052	पिपल्या	-	सोयाबीन	-	-	-

			00055	मलई	-	सोयाबीन	-	-	-
			00056	कोदरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00057	गुजरखंडा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00058	नेडगुराडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00059	घोरडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00060	भगौरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00061	अम्बाघटन	-	सोयाबीन	-	-	-
			00062	हरसोला	-	सोयाबीन	-	-	-
			00063	दत्तोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00064	मैमटी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00065	सिमरोल	-	सोयाबीन	-	-	-
			00066	शिवनगर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00067	जोशीगुराडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00068	घोसीखंडा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00069	सेण्डल	-	सोयाबीन	-	-	-
			00070	बाईग्राम	-	सोयाबीन	-	-	-
			00071	गुजारा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00072	राजपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00073	कल्याण	-	सोयाबीन	-	-	-
			00074	घोरल	-	सोयाबीन	-	-	-
			00075	गवातु	-	सोयाबीन	-	-	-
	सावेर								
		शिवा-3							
			00046	मकोडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00047	पुवाडाहप्पा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00048	पुवाडादई	-	सोयाबीन	-	-	-
			00049	हनुनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00050	कटवा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00051	बरलई जागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00052	बूठी बरलई	-	सोयाबीन	-	-	-
			00053	पीर कराडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00054	डकाच्या	-	सोयाबीन	-	-	-
			00055	टोडी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00056	रामुपिपल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
			00058	मंगल्या सडक	-	सोयाबीन	-	-	-
			00059	तसुडिया परमार	-	सोयाबीन	-	-	-
			00060	सुलाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00061	कदवाली बुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
			00062	पलासिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00063	मण्डलावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00064	कदवाली खट	-	सोयाबीन	-	-	-
			00065	फरसपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
			00066	व्यासखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00045	गुरान	-	सोयाबीन	-	-	-
		धरमपुरी-2							
			00026	टाकून	-	सोयाबीन	-	-	-
			00027	बालोदा टाकून	-	सोयाबीन	-	-	-
			00028	घतुरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00033	कटक्या	-	सोयाबीन	-	-	-
			00034	सोतसिन्दा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00035	मुरादपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00036	भवंरासला	-	सोयाबीन	-	-	-
			00037	कुम्हडी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00038	भाग्या	-	सोयाबीन	-	-	-
			00039	मगरखंडा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00040	पंचडेरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00041	बजरम पालिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00042	धनखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00043	बाहयण पिपल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
			00044	दर्जीकराडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00029	गवला	-	सोयाबीन	-	-	-
			00030	कजलाना	-	सोयाबीन	-	-	-
			00031	तराना	-	सोयाबीन	-	-	-
			00032	राजोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		सावेर-1							
			00001	बुडानियापथ	-	सोयाबीन	-	-	-
			00002	खम्भोद आजना	-	सोयाबीन	-	-	-
			00003	फोटलोद	-	सोयाबीन	-	-	-
			00004	चितोडा	-	सोयाबीन	-	-	-
			00005	बालरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00007	हिण्डोलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
			00008	बडोदिया खान	-	सोयाबीन	-	-	-
			00009	कायस्थ खेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
			00010	पानोड	-	सोयाबीन	-	-	-
			00011	बिलोदा नायत	-	सोयाबीन	-	-	-

		00012	सिमरोल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	जानौदी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	कुडना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	कस्बा साविर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	पंचोला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	नागपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	मण्डोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	बलगारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	खलखला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	खैरडिया बज्जात	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	हरियाखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	काप्रतिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	अजनाद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	गुलावट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	पिपल्या कायस्थ	-	सोयाबीन	-	-	-
	हातोद							
	आगरा-1							
		00001	मुरखेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	हसनाबाद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	पिपलीदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	आगरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	अहिरखेड़ी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	सुनठ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	अरन्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	बदरखा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	जम्बूडी सरवर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	कांकरियापाल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	जिन्दाखेड़ा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	बसान्दा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	सिकन्दी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	उषापुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	अकसोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	नेवरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	अटावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	अजन्दा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	गोहान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	कराडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	पंच बडोदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	गुलावट	-	सोयाबीन	-	-	-
	हातोद-2							
		00013	माताबरोडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	बघाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	सतलाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	अलवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	रेवती	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	पातिया हैदर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	कांकरिया बौडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	खजुरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	हातोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	रोजडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	बडी कलमेर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	जम्बूडी हन्सी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	बूढानिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	जिन्दागारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	बडाबांगडदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	टिगरिया बादशाह	-	सोयाबीन	-	-	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मीसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार सूची	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम						
सिंगरौली	चित्तौरी									
		कोरावल								
			00001	खम्हरिया		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00002	बहेरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00003	खम्हारडीह		धानअसिंचित	-	तुअर	मक्का	-
			00004	नेवारी		धानअसिंचित	-	तुअर	मक्का	-
			00006	रेही		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00007	करींदिया		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00008	बकिया		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00010	नेकहवा		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00011	फुटहवा		-	-	-	मक्का	-
			00012	गोपला		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00017	तमई		-	-	-	मक्का	-
			00018	पड़ी खुर्द		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00019	नीडिहवा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00020	खंडार		-	-	तुअर	मक्का	-
			00021	बरवाडीह		-	-	तुअर	मक्का	-
		चित्तौरी								
			00040	मिसिरगांव		-	-	तुअर	मक्का	-
			00041	सुपुर्वा		-	-	तुअर	मक्का	-
			00042	चित्तौवलखुर्द		-	-	-	मक्का	-
			00043	ओडनी		धानअसिंचित	-	तुअर	मक्का	-
			00044	खटाई		-	-	-	मक्का	-
			00045	बगदराकला		-	-	-	मक्का	-
			00048	बूडाडील		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00051	कूडैनिया		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00052	देवगाव		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00053	पोडी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00054	बडकुई		-	-	तुअर	मक्का	-
			00055	गोली		-	-	तुअर	मक्का	-
			00056	खैरा		-	-	तुअर	-	-
			00057	धारीलोकला		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00058	विजयपुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00059	गडुवानी		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00060	रजदहा		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00061	पडरी		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00062	बरहट		धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
			00064	कोरसर पैपछर		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00067	खुमगा		-	-	-	मक्का	-
			00069	खमरियाकला		धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
			00070	कपुआ		-	-	-	मक्का	-
			00071	पराई		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00073	बैरदह		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00074	करलो		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00075	गिर		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00076	देवरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00077	दरवारी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00078	पिडरिया		-	-	-	मक्का	-
		दुधमनिया								
			00079	डाला		-	-	-	मक्का	-
			00083	भौंडार		-	-	तुअर	मक्का	-
			00084	पतेरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00086	धरसडा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00087	खरकटा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00088	सैमआर		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00093	करेला		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00094	बरवानी		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00095	बिरकुनिया		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00096	पिपरा		धानअसिंचित	-	तुअर	मक्का	-
			00097	पोडी		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00098	दुधमनिया		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00100	मटौहनी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00101	खोखवा		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00102	बगैया		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00103	कपूरदेई		धानअसिंचित	-	-	मक्का	-
			00104	कतरिहार		-	-	-	मक्का	-

		00105	सिंधार						
		00106	बैरिहवा		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00107	सिनपौरी		-	-	तुअर	मक्का	-
		00108	एकरिया		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00109	अजगड़		-	-	तुअर	मक्का	-
		00110	खिरवा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00111	घतरी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00112	धरकी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
	मौहरिया								
		00022	लमसरई		-	-	तुअर	मक्का	-
		00023	ठटरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	डिघवार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	पोड़ी		-	-	-	मक्का	-
		00032	मौहरिया		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00034	पोघरा		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00035	खमनिया		-	-	-	मक्का	-
		00036	सूदा		-	-	-	मक्का	-
देवसर									
	देवसरगिर्द								
		00016	इटार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	धनहा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	नीटिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	सहआर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	मजीना		धानअसिचित	-	-	-	-
		00021	हरा घन्देत		धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	जोगिनी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00023	पूरवा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	खडौरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	बम्हनी		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00027	बूढाडाड		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00028	देवगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	उमरहर		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00030	आमो		धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	बोडी		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00032	निघेर		-	-	-	मक्का	-
		00033	मझिगवां		धानअसिचित	-	-	-	-
	बरगवां								
		00034	जुडवार		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00035	पोखरा		-	-	तुअर	मक्का	-
		00036	चिनहगाव		-	-	तुअर	-	-
		00037	बडोखर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	बदैनिया		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00040	बाघाडीह		धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	तितगडी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	उज्जनी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00044	मझौली		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00045	जौवगढ़		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00049	कनई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	भलुगढ़		धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	गोदवासी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	दादर		धानअसिचित	-	-	-	-
	सर्राधा								
		00001	कुन्दवार		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00005	मझिगवां		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00006	डोडकी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00007	सर्राधा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00010	घरकी		-	-	-	मक्का	-
		00011	कनरी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00012	अतरवा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00013	दोगा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00014	कुसी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00015	जियावन		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
साठा									
	अभिनिया								
		00001	अभिनिया		धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00002	सुहिरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	नगवां		धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	मलगा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	बैतरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	कोटिया		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00010	कर्सुआराजा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	रेला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	घौरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	सखीहा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	सिगाही		धानअसिचित	-	-	-	-

		00015	अमितवान		धानअसिधित	-	-	-	-
		00016	कथुरा		धानअसिधित	-	-	-	-
		00017	मपूरा		धानअसिधित	-	-	-	-
		00018	रजमितान	धानसिधित	धानअसिधित	-	-	मक्का	-
		00019	भुक्कु		धानअसिधित	-	-	-	-
	माडा								
		00026	रीहाल		धानअसिधित	-	तुअर	-	-
		00027	बुघरो		धानअसिधित	-	तुअर	-	-
		00028	भदेली		धानअसिधित	-	तुअर	-	-
		00029	धनगदू		धानअसिधित	-	तुअर	-	-
		00030	बिन्दूत		धानअसिधित	-	तुअर	-	-
		00031	जौर		धानअसिधित	-	तुअर	-	-
		00032	धरी		धानअसिधित	-	-	मक्का	-
		00033	माडा		धानअसिधित	-	तुअर	-	-
		00034	छत्तीली		धानअसिधित	-	तुअर	-	-
		00035	धनहरा		धानअसिधित	-	तुअर	-	-
		00037	ओखरावल		धानअसिधित	-	-	-	-
		00039	कुम्हिया		धानअसिधित	-	-	-	-
		00040	मलंगो		-	-	-	मक्का	-
		00043	करामी		-	-	-	मक्का	-
		00045	झासीटोला		धानअसिधित	-	-	-	-
		00048	जोगियानी		धानअसिधित	-	-	मक्का	-
सरई									
	खनआनया								
		00044	ओवरी		धानअसिधित	-	-	-	-
		00046	पघौर		धानअसिधित	-	-	-	-
		00047	बकहल		धानअसिधित	-	तुअर	मक्का	-
		00049	गोरा		धानअसिधित	-	-	मक्का	-
		00048	गजरा बहरा		धानअसिधित	-	तुअर	मक्का	-
		00051	जमगदी		धानअसिधित	-	-	मक्का	-
		00052	बधा		धानअसिधित	-	-	-	-
		00053	तेन्दुहा		-	-	-	मक्का	-
		00054	भलयाटोला		धानअसिधित	-	-	मक्का	-
		00056	झलरी		धानअसिधित	-	-	-	-
		00057	बजोडी		धानअसिधित	-	-	मक्का	-
		00058	ताल		धानअसिधित	-	-	मक्का	-
		00059	भीसाबूडा		धानअसिधित	-	तुअर	मक्का	-
		00060	तघोडीत		धानअसिधित	-	-	-	-
		00061	डोंगरी		धानअसिधित	-	-	मक्का	-
		00062	मझलीपाठ		धानअसिधित	-	-	मक्का	-
	निवास								
		00001	जावो		धानअसिधित	-	-	मक्का	-
		00002	करदा		-	-	-	मक्का	-
		00003	नयाटोला		-	-	-	मक्का	-
		00004	रजनिया		धानअसिधित	-	-	-	-
		00005	कछरा		धानअसिधित	-	-	-	-
		00006	कुचवाही		धानअसिधित	-	-	-	-
		00007	छमरक्ष		धानअसिधित	-	-	-	-
		00008	पापल		धानअसिधित	-	-	-	-
		00009	निगरी		धानअसिधित	-	-	-	-
		00010	कटई		धानअसिधित	-	-	-	-
		00011	निवास		धानअसिधित	-	-	-	-
		00012	हुदी		धानअसिधित	-	-	-	-
		00013	महआगाव		धानअसिधित	-	-	-	-
		00014	पोडी		धानअसिधित	-	-	-	-
		00015	भरसेडी		धानअसिधित	-	-	-	-
		00016	बंजारी		धानअसिधित	-	-	-	-
		00017	गडई गाव		धानअसिधित	-	तुअर	मक्का	-
		00018	भरसेडा		धानअसिधित	-	-	-	-
		00019	गीडा		धानअसिधित	-	-	-	-
		00020	धीहनी		धानअसिधित	-	-	-	-
		00021	महली		धानअसिधित	-	-	मक्का	-
	सरई								
		00022	पिपरी		-	-	-	मक्का	-
		00024	पिडा		धानअसिधित	-	-	मक्का	-
		00025	कठहरा		धानअसिधित	-	-	-	-
		00026	पूत		धानअसिधित	-	-	-	-
		00027	गन्ई		धानअसिधित	-	-	-	-
		00028	सरटोला		धानअसिधित	-	-	-	-
		00029	बरका		धानअसिधित	-	-	-	-
		00030	महरल		धानअसिधित	-	-	मक्का	-
		00031	गोडबहरा		धानअसिधित	-	-	-	-
		00032	साजापानी		धानअसिधित	-	-	-	-
		00033	झारा		धानअसिधित	-	-	-	-
		00034	बैलगाव		धानअसिधित	-	-	-	-

		00035	दुधमनिया	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00036	समूद	धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00037	इटमा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	कोनी	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00039	नीदया	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00040	घोषरा	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00041	सरई	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00042	पोखरीटोला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	दियामईई	धानअसिचित	-	-	-	-
	सिंगरोली							
	खुटार							
		00001	गडेरिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	चिन्गीटोला	-	-	-	मक्का	-
		00003	तेलदह	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00004	डिग्घी	धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-
		00005	पिपराझापी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	पोडीनीगई	धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	गडूहरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	देवरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	खटखरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	कंजी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	बिहरा	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00012	चितरबईकला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	गलिहरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	जरापी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	बनौली	धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	सितुलखुर्द	धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	जरहा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	कटौली	धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	खुटार	धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	डेकी	धानअसिचित	-	-	-	-
	बैठन							
		00023	पचार	धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	नीगढ़	धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	धौरौलीकला	-	-	तुअर	मक्का	-
		00028	मेढौली	-	-	-	मक्का	-
		00029	पंजरेह	धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00032	कचनी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	माजनकला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	घन्दावल	धानअसिचित	-	-	-	-
	शासन							
		00043	हिरवाह	धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	काम	धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	मझौली	धानअसिचित	-	-	-	-
		00046	चाघर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00047	बसौडा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00048	तियरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00049	पिपरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	सिद्धिकला	धानअसिचित	-	-	-	-
		00053	हुडूवा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	करौटी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00055	पिपराकुन्द	धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	उत्ती	-	-	तुअर	मक्का	-
		00057	बहरपान	-	-	तुअर	मक्का	-
		00058	चरगोडा	-	-	तुअर	मक्का	-
		00059	गोभा	धानअसिचित	-	तुअर	मक्का	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हन्को की सूची

मौसम	खरीफ		वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घणनित परसों की हन्कावार सूची									
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हन्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा				
नरसिंहपुर	करेली	आमगाँव	00047	अम्हेटा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-			
			00042	कंधरापुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-			
			00053	बन्हीरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-			
			00057	नयाखेड़ा	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	-			
			00059	गोबरगाँव	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-		
			00043	कपूरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-		
			00044	करताज	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-		
			00045	कोसमखेड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-		
			00046	निवारी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-		
			00048	सासबहू	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-		
			00049	जोवा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-		
			00050	मोहद	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-		
			00051	ब्रधुवार	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-		
			00054	आमगाँवबड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-		
			00055	सिमरियाकलां	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-		
			00056	पिपरिया(बरीदिया)	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-		
			00060	खिरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-		
			00061	बारहछेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-		
			00062	गवारीकलां	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-		
			00063	रमखिरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-		
			00064	हिन्नोतिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-		
			00065	माघामंड	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-	-		
				करेली		00019	गवारी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
						00020	धूपपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
						00021	चिजकी	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	-
						00022	समनापुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
						00023	उमरिया	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	-
						00024	देवाकछर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
						00025	कुम्हड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
						00026	रामपिपरिया	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	-
						00027	रातीकरावकलां	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	-
						00028	खैरी	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	-
						00029	पिपरिया (सिंगा)	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
						00030	रांकड़	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
						00031	पिपरिया (रांकड़)	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
						00032	कोदसा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
						00033	गोगावरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
						00034	जोहरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
						00035	इमलिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
						00036	जनोंर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
						00037	बसेड़ी	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-	-
						00038	खैरीनाका	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
						00039	कौतिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-
			00040	करेली	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-			
			00041	भुगवारा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-			
				बरमान		00004	पलोहा छेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
						00007	कुम्हरोड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
00008	बीतली	-				-	सोयाबीन	-	-	-				
00009	बिचुआ	-				-	सोयाबीन	-	-	-				
00010	रमपुरा	-				-	सोयाबीन	तुअर	-	-				
00011	सरसला	-				-	सोयाबीन	-	-	-				
00012	केरपानी	-				-	सोयाबीन	-	-	-				
00013	गुरसी	-				-	सोयाबीन	तुअर	-	-				
00015	मिदली	-				-	सोयाबीन	-	-	-				
00017	मानेगाँव	-				-	सोयाबीन	-	-	-				
00018	बीकोर	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-							
माडरवारा	करपगाँव		00156	टैकापार	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-				
			00157	नरसरा	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-				
			00158	कल्यानपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
			00159	पनारी	-	-	सोयाबीन	-	-	-				

		00039	पनागर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00040	सहावन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00041	मोहपा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00042	पचामा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00043	अमाडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00044	बावईकला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00045	बावईखुर्द	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00046	अर्जुनगाँव	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00047	मारेगाँव	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00048	छिनाकछर	धानसिंचित	-	-	-	तुअर	-
		00049	बसुरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00050	बारछी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00051	पलेरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00052	बैरागढ़	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00054	देवरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00055	माल्हनवाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00056	पवारिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00057	दाना	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00058	वारहावड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00059	दूरसूरु	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00060	चिपरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00061	इमलिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00062	उकासघाट	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00063	सीरेगाँव	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00064	कठौतिया	धानसिंचित	-	-	-	सोयाबीन	-
	बोहानी								
		00115	कोठिया		-	-	-	सोयाबीन	-
		00117	घघरीलाकला		-	-	-	सोयाबीन	-
		00118	भीरझिर		-	-	-	सोयाबीन	-
		00119	करहैया		-	-	-	सोयाबीन	-
		00120	सडुमर		-	-	-	सोयाबीन	तुअर
		00121	लितवानी		-	-	-	सोयाबीन	तुअर
		00127	नयागाँव		-	-	-	सोयाबीन	-
		00122	सुकरी		-	-	-	सोयाबीन	तुअर
		00123	अट्टायसा		-	-	-	सोयाबीन	तुअर
		00124	कोडिया		-	-	-	सोयाबीन	तुअर
		00125	चिर्निया		-	-	-	सोयाबीन	-
		00126	महगवा		-	-	-	सोयाबीन	तुअर
		00128	तिगुली		-	-	-	सोयाबीन	तुअर
		00129	झडिया		-	-	-	सोयाबीन	तुअर
		00130	चिरचिरा		-	-	-	सोयाबीन	-
		00131	बोहानी		-	-	-	सोयाबीन	तुअर
		00132	मनकवारा		-	-	-	सोयाबीन	-
		00133	बन्हीरी		-	-	-	सोयाबीन	-
	साईखेड़ा								
		00001	सिरसिरी		-	-	-	सोयाबीन	तुअर
		00002	मुआर		-	-	-	सोयाबीन	तुअर
		00003	मैहरागाँव		-	-	-	सोयाबीन	-
		00004	निबावर		-	-	-	सोयाबीन	-
		00005	झिक्ती		-	-	-	सोयाबीन	तुअर
		00006	तुमड़ा		-	-	-	सोयाबीन	तुअर
		00007	खिरेटी		-	-	-	सोयाबीन	-
		00008	पिटवास		-	-	-	सोयाबीन	तुअर
		00009	साईखेड़ा		-	-	-	सोयाबीन	तुअर
		00010	बन्हीरी खुर्द		-	-	-	सोयाबीन	तुअर
		00011	पीपरपानी		-	-	-	सोयाबीन	तुअर
		00012	रमपुरा		-	-	-	सोयाबीन	-
		00013	टकापार		-	-	-	सोयाबीन	-
		00014	दुडवापानी		-	-	-	सोयाबीन	तुअर
		00015	सोकलपुर		-	-	-	सोयाबीन	तुअर
		00016	चिपरिया कला		-	-	-	सोयाबीन	-
		00017	उडनी		-	-	-	सोयाबीन	तुअर
		00018	देतपान		-	-	-	सोयाबीन	-
		00019	अजंदा		-	-	-	सोयाबीन	-
	सिहोरा								
		00135	अजंनसरा		-	-	-	सोयाबीन	-
		00136	गरहा		-	-	-	सोयाबीन	-
		00137	इमझिरी		-	-	-	सोयाबीन	-
		00138	खुलरी		-	-	-	सोयाबीन	-
		00139	सगौरिया		-	-	-	सोयाबीन	तुअर
		00140	अंडिया		-	-	-	सोयाबीन	-
		00141	इगुरिया		-	-	-	सोयाबीन	तुअर
		00142	हेमरा		-	-	-	सोयाबीन	तुअर
		00144	सिंगा		-	-	-	सोयाबीन	तुअर
		00145	छिंतपार		-	-	-	सोयाबीन	तुअर

		00146	बीतली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00147	खुरसूरु		-	सोयाबीन	-	-	-
		00148	गीरास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00149	मंडेसूर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00150	रमखिरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00151	बांसखेड़ा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00152	महगुवा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00155	पूरगवा		-	सोयाबीन	-	-	-
	गोटेगांव								
	करकवेल								
		00001	राकल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	बुधगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	बट्टेयाखेड़ा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	देवरीकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	मोहास		-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	अकोला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	कंधारापूर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	ठमी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	कापखेड़ा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	वीछर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	वासनपानी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	मेख		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	करकवेल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	मुन्ना, पिपरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	बम्हनी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	आंखीवाड़ा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	सिमरीबडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	टिकरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	मानेगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	पोनिया (डुगरिया)		-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	गोहघर		-	सोयाबीन	-	-	-
	गोटेगांव								
		00024	रेहली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	खोबी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	मुआर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	वेलखेड़ी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	घंटली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	करलीकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	वेलखेड़ी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00033	झासीघाट		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	सिलारी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	पिपरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	सालीवाड़ा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	कुसीवाड़ा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	जौनी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	गरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	मुरदई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	कंजई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	सिमरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	बगलई उजर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	कम्बोद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	कुम्हड़ाखेड़ा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	बरोदा		-	सोयाबीन	-	-	-
	बरहटा								
		00086	सिवनी (बंघा)		-	सोयाबीन	-	-	-
		00087	सिलवानी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00089	खापा	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00090	रोहिया	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00071	नगबारा	धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		00072	नादिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	पिपरसरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	पिपरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	गुदरई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	सूरजारी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	मगरधा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	बेलखेड़ी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	रीछ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00081	बैदु		-	सोयाबीन	-	-	-
		00083	बरहटा	धानअसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00084	दीन	धानअसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00085	सिरकोना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00088	गाडवारखेड़ा		-	सोयाबीन	-	-	-
	श्रीनगर								
		00052	बगासपूर	धानअसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	देवनगर		-	सोयाबीन	-	-	-

		00053	अतरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	सरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	मनकवारा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	दबकिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	पिपरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	कोरेगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	कुंडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	ताठगांव		-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	गीरतला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	श्रीनगर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	भामा		-	सोयाबीन	-	-	-
	तेन्दुलगा								
	धावरपाठा								
		00023	चिन्थारी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00024	सिमरिया कला		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00025	करहैया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00026	इमलिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00027	छतरपुर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00028	डोभी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00029	बरकुन्डा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00030	इमलिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00031	बीधा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00032	पडरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	नादिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00034	गुटोरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	बिजीरा		-	-	तुअर	-	-
		00036	गुदरई		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00037	विन्हरा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00038	देवरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	सौलरी	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		00040	दिगसरा		-	-	तुअर	-	-
		00041	काशीखेरी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00042	मंहगुवा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00043	नेनवारा		-	-	तुअर	-	-
		00044	घोषपाठा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
	डोभी								
		00001	महूआखंडा		-	-	तुअर	-	-
		00003	सागीनी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00004	रम्पुरा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00006	विलगुवा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	इमझिरा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00010	उमरपानी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	मदनपुर		-	-	तुअर	-	-
		00012	बीधी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00013	भीरा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00014	टंकापार		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00015	काधरकोना		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00016	इश्वरपुर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00017	गंगई		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00018	ग्वारी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00019	मनकापुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00020	भामा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00021	बीकोर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00022	हीरापुर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
	नरसिंहपुर								
	नरसिंहपुर 1								
		00001	ठाना		-	-	तुअर	-	-
		00002	बंदरोहा		-	-	तुअर	-	-
		00003	हीरापुर		-	-	तुअर	-	-
		00004	अमोदा		-	-	तुअर	-	-
		00005	डोंगरगांव		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00006	मुर्गाखंडा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00007	पिठेहरा		-	-	तुअर	-	-
		00008	बीधी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00009	गराह		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00010	मुराछ		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00011	करहैया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	गुडवारा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00015	घन्टपुरा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00016	बन्हारी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00017	तिंदनी		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00018	नवागांव		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00019	धवना		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00020	इमलिया		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00021	नयाखंडा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-

		00022	सगीनीखुर्द		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00023	धुबघट		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00024	रानीपिडरई		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00025	सूपला		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00026	खापा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00027	मघवारा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	पिपरिया मल्ताह		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	बडगुवा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	बेलखेड़ा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	झिरिखुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	डोमरगाँव		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00034	पर्सि		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00035	भववारा		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00037	सूरजगाँव		-	सोयाबीन	-	-	-
	नरसिंहपुर २								
		00038	खमरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	जरजीला		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00040	नरसिंहपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	देवरीकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	नकटुआ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	खमतरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	रानीपिडरई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	धुबघट		-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	सिंहपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	सिमरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
	बघई								
		00052	मैसा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	पाता		-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	कल्याणपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	बास्नेवा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	झारखुरपा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	डागीदाना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	मुडिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	बहोरीपार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	सहजपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	पोरखेड़ा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	पीलापौन कला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	पीलापौन खुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	बडगुवा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	बबरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
	मृगवाती								
		00069	बकरो		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00070	देवनगर		-	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00075	ऊसरी		-	-	तुअर	-	-
		00076	रातोमाटी		धानअसिधित	-	-	-	-
		00078	कोदरासकला		-	-	तुअर	-	-
		00079	खमरिया		धानअसिधित	-	तुअर	-	-
		00080	गौरखपुर		-	-	तुअर	-	-
		00081	बालीद		-	-	तुअर	-	-
		00082	पिपरिया		-	-	तुअर	-	-
		00083	बिचुआ		-	-	तुअर	-	-
		00084	पांजरा		धानअसिधित	-	तुअर	-	-
		00085	डुडवारा		धानअसिधित	-	-	-	-
		00087	गडरिया		धानअसिधित	सोयाबीन	तुअर	-	-
		00088	लिधारी		धानअसिधित	-	तुअर	-	-

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची									
जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा			
खरगोन	कसरावद	कसरावद	00004	बलगांव	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00005	बालसमुद	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			मुलठान	00066	लेपा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
				00067	अमलाथा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
				00068	भाग्यपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
				00032	रायबीड़पुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-		
				खरगोन गोगावां	खरगोन गोगावां	00015	मगरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00025	राजपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	00028	कुम्हारखेड़ा	-			-	सोयाबीन	-	-	-			
	00029	देवली	-			-	सोयाबीन	-	-	-			
	00034	जगन्नाथपुरा	-			-	सोयाबीन	-	-	-			
	00036	घट्टी	-			-	सोयाबीन	-	-	-			
	00037	बलगांव	-			-	सोयाबीन	-	-	-			
	00006	महम्मोदपुरा	-			-	सोयाबीन	-	-	-			
	00007	बेजापुर	-			-	सोयाबीन	-	-	-			
	00021	बेहरामपुर	-			-	सोयाबीन	-	-	-			
	00022	बिलाली	-			-	सोयाबीन	-	-	-			
	00023	घुघरियाखेड़ी	-			-	सोयाबीन	-	-	-			
	00038	रूपखेड़ा	-			-	सोयाबीन	-	-	-			
	00041	दसनावल	-	-	सोयाबीन	-	-	-					
	00045	पिपलाई	-	-	सोयाबीन	-	-	-					
	00046	सिंगनूर	-	-	सोयाबीन	-	-	-					
	झिरन्या	झिरन्या	00027	छेड़ियां	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00029	मिटवाई	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00031	अम्बाडोचर	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00037	गोरखपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00047	पुतला	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
बड़वाह	बड़वाह (आर.आई.-01)	00049	डेहीरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
		00010	बिलाली	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
		00037	सोरठीबारूल	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
सनावद	सनावद (आर.आई.-02)	00014	माचलपुरखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
		00081	बागदाबुजुर्ग	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
		00094	बाल्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
		00089	बड़ुद	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
		00091	साला	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
		00111	छापरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
		00096	दसोड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
भीकनगांव	भीकनगांव	00049	सगूर	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
		00042	टेमला	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
		00046	केदबजागीर	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
		00050	फोई	-	-	सोयाबीन	-	-	-				
		00053	बमनाला	-	-	सोयाबीन	-	-	-				

मौसम	खरीफ	वर्ष	2014-2015	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
			00054	वल्का	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00064	बड़िया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00065	पालासी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00066	सुन्देल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
	महेश्वर	करही	00059	वाणी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00068	पालसूद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00069	मचलपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00070	बरलाय	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		महेश्वर	00005	सैल	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00006	मक्की	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00040	देवपिपल्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00037	मंदोरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-

नोट :- आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त ग्वालियर के पत्र क्र 809/सॉ.-12/14-15/अधिसूचना/पट/ दिनांक 11.09.2014 के द्वारा मौसम खरीफ 2014 जिला खरगोन कि पटवारी हल्का स्तर की संशोधित सूची के अनुसार संशोधन किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम - खरीफ			वर्ष 2014-2015		100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं०	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	मक्का	बाजरा	
कटनी	कटनी	मुडवारा-1	43	छपरवाहा	धानसिंचित	-	-	-	-	
		मुडवारा-2	05	बिस्तरा	-	धानअसिंचित	-	-	-	
		-,-	23	चाका	-	धानअसिंचित	-	-	-	
		पहाडी	47	गैतरी	-	धानअसिंचित	-	-	-	
		-,-	62	सिंधनपुरी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	
बडवारा	बडवारा	बडवारा	06	नन्हवारा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	
		-,-	04	भगनवारा	-	धानअसिंचित	-	-	-	
		-,-	21	सकरीगढ़	-	धानअसिंचित	-	-	-	
		-,-	25	गुड़ाकला	धानसिंचित	-	-	-	-	
		वि०गढ़	वि०गढ़	29	झिरियासलैया	धानसिंचित	-	-	-	-
बहोरीबंद	बहोरीबंद	-,-	30	नन्हवाराकला	धानसिंचित	-	-	-	-	
		-,-	45	कारीतलाई	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	
		-,-	52	परसवारा	धानसिंचित	-	-	-	-	
		-,-	46	बम्होरी	धानसिंचित	-	-	-	-	
		-,-	47	हरदुआ(लखनपुर)	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	
		-,-	48	कुसमा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	
		सिनगौड़ी	62	सिजहरा	-	धानअसिंचित	-	-	-	
		पाकर	24	पाकर	-	धानअसिंचित	-	-	-	
ढीमरखेड़ा	ढीमरखेड़ा	ढीमरखेड़ा	13	दिवरी	-	धानअसिंचित	-	-	-	
		-,-	21	कछारगांव	-	धानअसिंचित	-	-	-	